



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

5 पौष, 1941 (श०)

संख्या- 1063 राँची, गुरुवार, 26 दिसम्बर, 2019 (ई०)

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

24 दिसम्बर, 2019 / 3 पौष, 1941 (शक)

सं० 308/झार०-वि०स०/2019 :- यतः झारखण्ड राज्य के राज्यपाल द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 15 की उप-धारा (2) के अधीन अपनी अधिसूचना संख्याओं 01/नि०(वि०स०)-16-07/2019/35, 01/नि०(वि०स०)-16-09/2019/36, 01/नि०(वि०स०)-16-14/2019/37, 01/नि०(वि०स०)-16-14/2019/39 एवं 01/नि०(वि०स०)-16-14/2019/42 जो क्रमशः 6 नवम्बर, 2019, 11 नवम्बर, 2019, 16 नवम्बर, 2019, 22 नवम्बर, 2019 एवं 26 नवम्बर, 2019 को जारी की गई थी, के अनुसरण में झारखण्ड राज्य के लिए नई विधान सभा के गठन के प्रयोजन हेतु साधारण निर्वाचन कराया गया; और

यतः उक्त साधारण निर्वाचन में सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचनों का परिणाम संबंधित रिटर्निंग आफिसर द्वारा घोषित कर दिया गया है;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 73 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग उन निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचित सदस्यों के नाम, उनके सम्बद्ध दल सहित यदि कोई हो, इस अधिसूचना की अनुसूची में एतद्वारा अधिसूचित करता है।

आदेश से,

अरविन्द आनन्द,
सचिव

दिनांक -24 दिसम्बर, 2019 की अनुसूची

विधानसभा क्षेत्र की संख्या व नाम	निर्वाचित सदस्य का नाम	संबद्ध दल, यदि कोई हो
01-राजमहल	अनंत कुमार ओझा	भारतीय जनता पार्टी
02-बोरियो (अ.ज.जा.)	लोबिन हेम्ब्रम	झारखण्ड मुक्ति मोर्चा
03-बरहैट (अ.ज.जा.)	हेमन्त सोरेन	झारखण्ड मुक्ति मोर्चा
04-लिटिपाड़ा (अ.ज.जा.)	दिनेश विलियम मरांडी	झारखण्ड मुक्ति मोर्चा
05-पाकुड़	आलमगीर आलम	इंडियन नेशनल काँग्रेस
06-महेशपुर (अ.ज.जा.)	स्टीफन मरांडी	झारखण्ड मुक्ति मोर्चा
07-शिकारीपाड़ा (अ.ज.जा.)	नलिन सोरेन	झारखण्ड मुक्ति मोर्चा
08-नाला	रवीन्द्र नाथ महतो	झारखण्ड मुक्ति मोर्चा
09-जामताड़ा	इरफान अंसारी	इंडियन नेशनल काँग्रेस
10-दुमका (अ.ज.जा.)	हेमन्त सोरेन	झारखण्ड मुक्ति मोर्चा
11-जामा (अ.ज.जा.)	सीता मुर्मू	झारखण्ड मुक्ति मोर्चा
12-जरमुण्डी	बादल	इंडियन नेशनल काँग्रेस
13-मधुपुर	हाजी हुसैन अंसारी	झारखण्ड मुक्ति मोर्चा
14-सारठ	रणधीर कुमार सिंह	भारतीय जनता पार्टी
15-देवघर (अ.जा.)	नारायण दास	भारतीय जनता पार्टी
16-पोड़ैयाहाट	प्रदीप यादव	झारखण्ड विकास मोर्चा (प्रजातांत्रिक)
17-गोड्डा	अमित कुमार मंडल	भारतीय जनता पार्टी
18-महगामा	दीपिका पाण्डेय सिंह	इंडियन नेशनल काँग्रेस
19-कोडरमा	डॉ० नीरा यादव	भारतीय जनता पार्टी
20-बड़काठा	अमित कुमार यादव पुत्र-चितरंजन यादव	निर्दलीय

21-बरही	उमाशंकर अकेला	इंडियन नेशनल काँग्रेस
22-बड़कागांव	अम्बा प्रसाद	इंडियन नेशनल काँग्रेस
23-रामगढ़	ममता देवी	इंडियन नेशनल काँग्रेस
24-माण्डू	जय प्रकाश भाई पटेल	भारतीय जनता पार्टी
25-हजारीबाग	मनीष जायसवाल	भारतीय जनता पार्टी
26-सिमरिया (अ.जा.)	किशुन कुमार दास	भारतीय जनता पार्टी
27-चतरा (अ.जा.)	सत्यानन्द भोक्ता	राष्ट्रीय जनता दल
28-धनवार	बाबू लाल मराण्डी	झारखण्ड विकास मोर्चा (प्रजातांत्रिक)
29-बगोदर	विनोद कुमार सिंह	कम्यूनिष्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माक्सिसिस्ट-लेनिनिस्ट) (लिबरेशन)
30-जमुआ (अ.जा.)	केदार हजरा	भारतीय जनता पार्टी
31-गाण्डे	डॉ सरफराज अहमद	झारखण्ड मुक्ति मोर्चा
32-गिरिडीह	सुदिव्य कुमार	झारखण्ड मुक्ति मोर्चा
33-डुमरी	जगरनाथ महतो	झारखण्ड मुक्ति मोर्चा
34-गोमिया	लम्बोदर महतो	आजसु पार्टी
35-बेरमो	राजेन्द्र प्रसाद सिंह	इंडियन नेशनल काँग्रेस
36-बोकारो	बिरंची नारायण	भारतीय जनता पार्टी
37-चन्दनकियारी (अ.जा.)	अमर कुमार बाउरी	भारतीय जनता पार्टी
38-सिन्दरी	इन्द्रजीत महतो	भारतीय जनता पार्टी
39-निरसा	अपर्णा सेनगुप्ता	भारतीय जनता पार्टी
40-धनबाद	राज सिन्हा	भारतीय जनता पार्टी
41-झरिया	पुर्णिमा नीरज सिंह	इंडियन नेशनल काँग्रेस
42-टुण्डी	मथुरा प्रसाद महतो	झारखण्ड मुक्ति मोर्चा
43-बाघमारा	दुलू महतो	भारतीय जनता पार्टी

44-बहरागोड़ा	समीर कुमार महान्ती	झारखण्ड मुक्ति मोर्चा
45-घाटशिला (अ.ज.जा.)	रामदास सोरेन	झारखण्ड मुक्ति मोर्चा
46-पोटका (अ.ज.जा.)	संजीव सरदार	झारखण्ड मुक्ति मोर्चा
47-जुगसलाई (अ.जा.)	मंगल कालिन्दी	झारखण्ड मुक्ति मोर्चा
48-जमशेदपुर पूर्व	सरयू राय	निर्दलीय
49-जमशेदपुर पश्चिम	बन्ना गुप्ता	इंडियन नेशनल काँग्रेस
50-ईचागढ़	सविता महतो	झारखण्ड मुक्ति मोर्चा
51-सरायकेला (अ.ज.जा.)	चाम्पाई सोरेन	झारखण्ड मुक्ति मोर्चा
52-चाईबासा (अ.ज.जा.)	दीपक बिरुवा	झारखण्ड मुक्ति मोर्चा
53-मझगांव (अ.ज.जा.)	निरल पुरती	झारखण्ड मुक्ति मोर्चा
54-जगन्नाथपुर (अ.ज.जा.)	सोनाराम सिंघु	इंडियन नेशनल काँग्रेस
55-मनोहरपुर (अ.ज.जा.)	जोबा माझी	झारखण्ड मुक्ति मोर्चा
56-चक्रधरपुर (अ.ज.जा.)	सुखराम उराँव	झारखण्ड मुक्ति मोर्चा
57-खरसावां (अ.ज.जा.)	दशरथ गागराई	झारखण्ड मुक्ति मोर्चा
58-तमाड़ (अ.ज.जा.)	विकास कुमार मुंडा	झारखण्ड मुक्ति मोर्चा
59-तोरपा (अ.ज.जा.)	कोचे मुण्डा	भारतीय जनता पार्टी
60-खूँटी (अ.ज.जा.)	नीलकंठ सिंह मुन्डा	भारतीय जनता पार्टी
61-सिल्ली	सुदेश कुमार महतो	आजसु पार्टी
62-खिजरी (अ.ज.जा.)	राजेश कच्छप	इंडियन नेशनल काँग्रेस
63-रांची	चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह	भारतीय जनता पार्टी
64-हटिया	नवीन जयसवाल	भारतीय जनता पार्टी
65-कांके (अ.जा.)	समरी लाल	भारतीय जनता पार्टी
66-मान्डर (अ.ज.जा.)	बंधु तिकी	झारखण्ड विकास मोर्चा (प्रजातांत्रिक)
67-सिसई (अ.ज.जा.)	जिगा सुसारण होरो	झारखण्ड मुक्ति मोर्चा

68-गुमला (अ.ज.जा.)	भूषण तिर्की	झारखण्ड मुक्ति मोर्चा
69-बिशुनपुर (अ.ज.जा.)	चमरा लिण्डा	झारखण्ड मुक्ति मोर्चा
70-सिमडेगा (अ.ज.जा.)	भूषण बड़ा	इंडियन नेशनल काँग्रेस
71-कोलेबिरा (अ.ज.जा.)	नमन बिकसल कोनगाड़ी	इंडियन नेशनल काँग्रेस
72-लोहरदगा (अ.ज.जा.)	रामेश्वर उराँव	इंडियन नेशनल काँग्रेस
73-मनिका (अ.ज.जा.)	रामचन्द्र सिंह	इंडियन नेशनल काँग्रेस
74-लातेहार (अ.जा.)	बैद्यनाथ राम	झारखण्ड मुक्ति मोर्चा
75-पांकी	कुशवाहा शशि भूषण मेहता	भारतीय जनता पार्टी
76-डालटेनगंज	आलोक कुमार चौरसिया	भारतीय जनता पार्टी
77-विश्रामपुर	रामचंद्र चन्द्रवंशी	भारतीय जनता पार्टी
78-छतरपुर (अ.जा.)	पुष्पा देवी	भारतीय जनता पार्टी
79-हुसैनाबाद	कमलेश कुमार सिंह	नेशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी
80-गढ़वा	मिथिलेश कुमार ठाकुर	झारखण्ड मुक्ति मोर्चा
81-भवनाथपुर	भानु प्रताप शाही	भारतीय जनता पार्टी

अरविन्द आनन्द,

सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग।

उपरोक्त अधिसूचना का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनय कुमार चौबे,

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION**24th December, 2019/ 3 Pausha, 1941(Saka)**

No. 308/JKD-LA/2019 :- Whereas, in pursuance of notification numbers 01/Ni.(Vi.Sa.)/16-07/2019/35, 01/Ni.(Vi.Sa.)/16-09/2019/36, 01/Ni.(Vi.Sa.)/16-14/2019/37, 01/Ni.(Vi.Sa.)/16 14/2019/39 and 01/Ni.(Vi.Sa.)/16-14/2019/42, issued by the Governor of the State of Jharkhand on 6th November, 2019, 11th November, 2019, 16th November, 2019, 22nd November, 2019 and 26th November, 2019, respectively under sub-section (2) of Section 15 of the Representation of the People Act, 1951(43 of 1951), a General Election has been held for the purpose of constituting a new Legislative Assembly for the State of Jharkhand; and

Whereas, the results of the elections in all Assembly Constituencies of Jharkhand in the said General Election, have been declared by the Returning Officers concerned;

Now, therefore, in pursuance of Section 73 of the Representation of the People Act. 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby notifies the names of the Members elected for those Assembly Constituencies, along with their party affiliation, if any, in the schedule of this Notification.

By order,

ARVIND ANAND,
SECRETARY

**SCHEDULE TO NOTIFICATION NO. 308/JKD-LA/2019, DATED 24th DECEMBER, 2019 OF
ELECTION COMMISSION OF INDIA**

Name & Number of Assembly Constituency	Name of Elected Member	Party Affiliation, if any
1-Rajmahal	Anant Kumar Ojha	Bharatiya Janata Party
2-Borio (ST)	Lobin Hembrom	Jharkhand Mukti Morcha
3-Barhait (ST)	Hemant Soren	Jharkhand Mukti Morcha
4-Litipara (ST)	Dinesh William Marandi	Jharkhand Mukti Morcha
5-Pakaur	Alamgir Alam	Indian National Congress
6-Maheshpur (ST)	Stephen Marandi	Jharkhand Mukti Morcha
7-Sikaripara (ST)	Nalin Soren	Jharkhand Mukti Morcha
8-Nala	Rabindra Nath Mahato	Jharkhand Mukti Morcha
9-Jamtara	Irfan Ansari	Indian National Congress
10-Dumka (ST)	Hemant Soren	Jharkhand Mukti Morcha
11-Jama (ST)	Sita Murmu	Jharkhand Mukti Morcha
12-Jarmundi	Badal	Indian National Congress
13-Madhupur	Haji Hussain Ansari	Jharkhand Mukti Morcha
14-Sarath	Randhir Kumar Singh	Bharatiya Janata Party
15-Deoghar (SC)	Narayan Das	Bharatiya Janata Party
16-Poreyahat	Pradeep Yadav	Jharkhand Vikas Morcha (Prajatantrik)
17-Godda	Amit Kumar Mandal	Bharatiya Janata Party
18-Mahagama	Deepika Pandey Singh	Indian National Congress
19-Kodarma	Dr. Neera Yadav	Bharatiya Janata Party
20-Barkatha	Amit Kumar Yadav S/o-Chitranjan Yadav	Independent

21-Barhi	Umashankar Akela	Indian National Congress
22-Barkagaon	Amba Prasad	Indian National Congress
23-Ramgarh	Mamta Devi	Indian National Congress
24-Mandu	Jai Prakash Bhai Patel	Bharatiya Janata Party
25-Hazaribagh	Manish Jaiswal	Bharatiya Janata Party
26-Simaria (SC)	Kishun Kumar Das	Bharatiya Janata Party
27-Chatra (SC)	Satyanand Bhokta	Rashtriya Janata Dal
28-Dhanwar	Babulal Marandi	Jharkhand Vikas Morcha (Prajantrik)
29-Bagodar	Vinod Kumar Singh	Communist Party of India (Marxist-Leninist) (Liberation)
30-Jamua (SC)	Kedar Hazra	Bharatiya Janata Party
31-Gandey	Dr Sarfraz Ahmad	Jharkhand Mukti Morcha
32-Giridih	Sudivya Kumar	Jharkhand Mukti Morcha
33-Dumri	Jagarnath Mahto	Jharkhand Mukti Morcha
34-Gomia	Lambodar Mahto	AJSU Party
35-Bermo	Rajendra Pd. Singh	Indian National Congress
36-Bokaro	Biranchi Narayan	Bharatiya Janata Party
37-Chandankiyari (SC)	Amar Kumar Bauri	Bharatiya Janata Party
38-Sindri	Indrajit Mahato	Bharatiya Janata Party
39-Nirsa	Aparna Sengupta	Bharatiya Janata Party
40-Dhanbad	Raj Sinha	Bharatiya Janata Party
41-Jharia	Purnima Niraj Singh	Indian National Congress
42-Tundi	Mathura Prasad Mahato	Jharkhand Mukti Morcha
43 - Baghmara	Dulu Mahato	Bharatiya Janata Party
44-Baharagora	Samir Kr. Mohanty	Jharkhand Mukti Morcha

45-Ghatsila (ST)	Ramdas Soren	Jharkhand Mukti Morcha
46-Potka (ST)	Sanjib Sardar	Jharkhand Mukti Morcha
47-Jugsalai (SC)	Mangal Kalindi	Jharkhand Mukti Morcha
48-Jamshedpur East	Saryu Roy	Independent
49-Jamshedpur West	Banna Gupta	Indian National Congress
50-Ichagarh	Sabita Mahato	Jharkhand Mukti Morcha
51-Seraikella (ST)	Champai Soren	Jharkhand Mukti Morcha
52-Chaibasa (ST)	Deepak Birua	Jharkhand Mukti Morcha
53-Majhgaon (ST)	Niral Purty	Jharkhand Mukti Morcha
54-Jaganathpur (ST)	Sona Ram Sinku	Indian National Congress
55-Manoharpur (ST)	Joba Majhi	Jharkhand Mukti Morcha
56-Chakradharpur (ST)	Sukhram Oraon	Jharkhand Mukti Morcha
57-Kharsawan (ST)	Dashrath Gagrai	Jharkhand Mukti Morcha
58-Tamar (ST)	Vikas Kumar Munda	Jharkhand Mukti Morcha
59-Torpa (ST)	Koche Munda	Bharatiya Janata Party
60-Khunti (ST)	Nilkanth Singh Munda	Bharatiya Janata Party
61-Silli	Sudesh Kumar Mahto	AJSU Party
62-Khijri (ST)	Rajesh Kachhap	Indian National Congress
63-Ranchi	Chandreshwar Prasad Singh	Bharatiya Janata Party
64-Hatia	Navin Jaiswal	Bharatiya Janata Party
65-Kanke (SC)	Samhari Lal	Bharatiya Janata Party
66-Mandar (ST)	Bandhu Tirkey	Jharkhand Vikas Morcha (Prajatantrik)
67-Sisai (ST)	Jiga Susaran Horo	Jharkhand Mukti Morcha
68-Gumla (ST)	Bhushan Tirkey	Jharkhand Mukti Morcha

69-Bishunpur (ST)	Chamra Linda	Jharkhand Mukti Morcha
70-Simdega (ST)	Bhushan Bara	Indian National Congress
71-Kolebira (ST)	Naman Bixal Kongari	Indian National Congress
72-Lohardaga (ST)	Rameshwar Oraon	Indian National Congress
73-Manika (ST)	Ramchandra Singh	Indian National Congress
74-Latehar (SC)	Baidyanath Ram	Jharkhand Mukti Morcha
75-Panki	Kushwaha Shashi Bhushan Mehta	Bharatiya Janata Party
76-Daltonganj	Alok Kumar Chaurasiya	Bharatiya Janata Party
77-Bishrampur	Ramchandra Chandravanshi	Bharatiya Janata Party
78-Chhatarpur (SC)	Pushpa Devi	Bharatiya Janata Party
79-Hussainabad	Kamlesh Kumar Singh	Nationalist Congress Party
80-Garhwa	Mithilesh Kumar Thakur	Jharkhand Mukti Morcha
81-Bhawanathpur	Bhanu Pratap Shahi	Bharatiya Janata Party

ARVIND ANAND,

SECRETARY
ELECTION COMMISSION OF INDIA.
